



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 763 राँची, शुक्रवार

3 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

30 जनवरी, 2018

संख्या-5/आरोप-1-53/2015 का. - 90(HRMS)-- श्री देवेंद्र भूषण सिंह, झा०प्र०से० (कोटी क्रमांक-471/03), तत्कालीन उप विकास आयुक्त, खूँटी के विरुद्ध नाबालिक लड़की के साथ लैंगिक उत्पीड़न करने संबंधि आरोप हेतु विभागीय आदेश सं०-7307, दिनांक 13 अगस्त, 2016 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है ।

2. उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-1315/गो०, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार, सूचक एवं पीड़िता द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर, 2017 को श्री राजेश कुमार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम, खूँटी के न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें आरोपित पदाधिकारी को निर्दोष बताया गया है । साथ ही, प्रतिवेदित किया गया है की श्री सिंह के विरुद्ध फूलमनी गुडीया(सूचक) एवं दुली गुडीया (पीड़िता) द्वारा राजनीतिक दबाव एवं बहकावे में आकार प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही गयी है एवं इन्होंने लिखित आवेदन देकर श्री सिंह को निर्दोष बताया गया है ।

| Sr. No. | Employee Name (G.P.F. No.) | Decision of the Competent Authority | Effective Date |
|---------|------------------------------------|---|----------------|
| 1. | DEVENDRA BHUSHAN (BHR/BAS/1507) | श्री देवेन्द्र भूषण सिंह, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, खूँटी सम्प्रति-निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलम्बन से मुक्त करने के संबंध में । | 30/01/2018 |

3. उपायुक्त, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री देवेन्द्र भूषण सिंह, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, खूँटी सम्प्रति-निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलम्बन से मुक्त किया जाता है ।

4. निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,

सरकार के सयुक्त सचिव

जेपीएफ संख्या: BHR/BAS/2502
